



The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai- 400 051

SRF/SEC/AGM-48/2019

12th July, 2019

Dear Sir,

Sub: Publication of Notice of 48th Annual General Meeting- SRF Limited

In Compliance with Regulation 30(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of AGM, Book Closure and e-voting notice published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspaper, in connection with aforesaid AGM. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.srf.com

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **SRF LIMITED**

Rajat Lakhanpal
VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

EM

Encl : A/a

SRF LIMITED
Block C Sector 45
Gurugram 122 003
Haryana India
Tel: +91-124-4354400
Fax: +91-124-4354500
E-mail: info@srf.com
Website : www.srf.com

Regd. Office :
Unit No. 236 & 237, 2nd Floor
DLF Galleria, Mayur Place
Noida Link Road
Mayur Vihar Phase-1 Extension
Delhi 110091


Sensex soars 266 pts on Fed rate cut signal

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, July 11


THE SENSEX REVERSED recent losses to end 266 points higher on Thursday, largely in line with global markets which rallied after the US Federal Reserve Chair Jerome Powell bolstered expectations of a rate cut.

After rising as much as 333 points during the day, the 30-share index settled 266.07 points or 0.69% higher at 38,823.11. The broader NSE Nifty climbed 84 points, or 0.73%, to 11,582.90.

World markets rose after Powell told a Congressional



committee on Wednesday that the central bank is ready to "act as appropriate" to boost growth amid multiple headwinds. Investors are wagering on a rate cut by the Fed as early as this month.



Hero MotoCorp was the top gainer in the Sensex pack, spurring 4.46%. IndusInd Bank, Tata Motors, Vedanta, SBI, M&M, Sun Pharma, Tata Steel, HDFC and HDFC Bank rose up to 3.63%.

On the other hand, Tech Mahindra, Yes Bank, TCS, L&T, Axis Bank and NTPC lost up to 1.27%.

"Dovish commentary from Fed chairman Jerome Powell rekindled cut hopes, leading to rebound in equities world over. The Indian markets were no exception with more than half a percent gain in Nifty as well as midcap index. The rate cuts will improve the liquidity situation globally and eventually will find its way to emerging markets which are enhancing investment sentiments. Overhang of the Budget is gradually fading and focus is shifting towards global events and earnings," said Sunil Sharma, chief investment officer, Sanctum Wealth Management.

Notably, BSE auto, metal, telecom, realty, utilities and finance indices rose up to 1.84%. However, capital goods and consumer durables lost up to 0.69%.

The BSE midcap and small-cap indices followed the benchmark, rising up to 0.56%.

Elsewhere in Asia, China's Shanghai Composite Index gained 0.08%, Hong Kong's Hang Seng climbed 0.81%, Japan's Nikkei rose 0.51% and South Korean benchmark KOSPI ended 1.06% higher.

SRF LIMITED
CIN: L1810TD1970PL0005197
Registered Office: The Galleria, DLF Mayapuri Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayapuri Place, Mayapuri Vihar Phase I East, Delhi - 110091
Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurgaon-122005
Tel: +91-124-4354400, Fax No: +91-124-4354500
Email: info@srf.com, Website: www.srf.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING
NOTICE is hereby given that the 48th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, August 5, 2019 at 03.30 p.m. at the Lakshmi Singhania Auditorium, PHD House, 4/2 Sini Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110 016 to transact the business set out in the Notice of the AGM dated June 25, 2019.

The Notice of the AGM, Annual Report and attendance slip has been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar & Transfer Agents Karyv Fintech Pvt. Ltd./ Depository Participants. Physical copies of such documents have been sent to all other shareholders at their registered addresses as permitted mode. The Notice has been dispatched/mailed to all the members and the process has been completed on July 10, 2019.

A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint another person as his Proxy to attend and on a Poll, to vote instead of himself and the Proxy need not be a Member of the Company.

The notice of the AGM is also available on the Company's website www.srf.com and on Karyv's website https://evoting.karyv.com.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 30th July, 2019 to Monday, the 5th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of ensuring Annual General Meeting of the Company.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote at the 48th Annual General Meeting by electronic means and the business as set out in the Notice may be transacted through remote e-Voting Services provided by Karyv Fintech Pvt. Ltd. The members may note the following that:-

- The remote e-voting instructions forms an integral part of the Notice of Annual General Meeting which is also displayed at Company's website www.srf.com and on Karyv's website https://evoting.karyv.com.
- The remote e-voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the equity capital of the Company as on the cut-off date (i.e. the record date), being Monday, 29th July, 2019. Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date (i.e. Monday, 29th July, 2019) may obtain User ID and password by approaching Karyv Fintech Pvt. Ltd.
- The remote e-voting poll will open from 10.00 a.m. on Friday, August 2, 2019 to 5.00 p.m. on Sunday, August 4, 2019. The e-voting shall not be allowed beyond the prescribed time mentioned above.
- Any grievances in respect of e-voting may be addressed to Mr. B. Venkata Kishore - Assistant Manager, at email ID evoting@karyv.com, Telephone No. 043-44671622.

The facility for voting through Physical ballot shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-Voting shall be able to vote at the meeting through "Physical Ballot".

Members may participate in the 48th AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.srf.com and on Karyv's website (<https://evoting.karyv.com>) immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to BSE and NSE.

For SRF LIMITED
Sd/-
Rajat Lakhnani
VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

SBI puts 2 NPA accounts on sale to recover ₹309-cr dues

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 11

STATE BANK OF INDIA (SBI) has put for sale two financial assets to assist reconstruction companies, NBFCs and other financial institutions to recover dues of more than ₹309 crore.

In terms of bank's policy for sale of financial assets, the bank is placing Rajashree Sugars & Chemicals and Shree Vaishnavi Ispat for sale to banks/ARCs/NBFCs/FIs, it said in the

expression of invitation for the sale process.

Rajashree Sugars and Chemicals has a saleable net worth of ₹236.94 crore towards the country's largest lender while, Shree Vaishnavi of Rs 82.52 crore.

The e-auction of Rajashree will take place on July 22 while that of Shree Vaishnavi on July 29.

The interested banks/ARCs/NBFCs/FIs can send due diligence of these assets with immediate effect, SBI said.

Religare to sell NBFC arm, housing fin unit

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 11

RELIGARE ENTERPRISES SAID on Thursday it will sell its entire stake in NBFC arm Religare Finvest (RFI) along with RFI's housing finance subsidiary RHDFC to TCG group for an undisclosed amount.

REI has entered into a binding term

sheet with TCG Advisory Services (TCG) for sale of its entire stake in its NBFC arm RFI, along with RFI's housing finance subsidiary Religare Housing Development Finance Corporation (RHDFC), Religare Enterprises (REI) in a release.

It will also provide necessary support to boost future growth of the businesses, it said.

BSE
BSE Limited
Registered office: 25, Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400011.
Tel: +91 (22) 272 1232/34 • CIN: L57120MH2005PL1015198

PUBLIC NOTICE
Inviting claims against WEALTH MANTRA LIMITED declared as expel

Wealth Mantra Ltd (CIN No. 30881), a Trading Member of the Exchange, has been expelled w.e.f. February 19, 2019 as provided under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, as a disciplinary action, for violations observed during inspection by the Exchange.

Investors who have any outstanding claims against Wealth Mantra Ltd are advised to lodge claims with the Exchange, if they so desire, within 90 days from the date of issue of this notice and no such claims filed after 90 days will be entertained by the Exchange against the above trading member and it shall be deemed that no such claims exist against the above mentioned trading member or such claims, if any shall be deemed to have been waived. The claims filed against the above trading member will be dealt with in accordance with the By-laws, Rules, Regulations and procedures of the Exchange.

It may be noted that the clients filing their claims against expelled member, within the aforesaid specified period of 90 days, would be considered for payment to the extent of the assets of the said member available with the Exchange, on a pro-rata basis where the claim value exceeds the assets of the expelled member.

The investors can file their claim against WEALTH MANTRA LIMITED

- at the concerned regional Investor Centre of BSE Ltd. or through email on the email: ic@investor.bseindia.com or through the link - https://www.bseindia.com/Static/Investors/cac_fm.aspx or
- through Exchange's website under e-Complaint Registration at the link - <https://bseesr.bseindia.com/ecomplaint/InvestorHome.aspx>

For BSE Limited
Sd/-
Chief General Manager
Dept. of Investors Services

Place: Mumbai
Date: 12th July 2019

BHOPAL SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Zone-14, Bhopal Municipal Corporation, BHEL, Govindpura, Bhopal-462019, (M.P.) Phone: 0755-237774
Email: bscdcl@smartbhopal.city | www.smartcitybhopal.com

Ref. No. 482 /BSCDCL/2019 Bhopal, dated: 10/07/2019

EXPRESSION OF INTEREST

Bhopal Smart City Development Corporation Limited invites Expression of Interest (EOI) from reputed Banks/ Lending Institutions who would be interested in providing loan to BSCDCL for infrastructure development at ABD Project Area. EOIs can be submitted online on mail id: bscdcl@smartbhopal.city up to 01/08/2019 till 05.30 PM. For details please visit www.mafenders.gov.in or <https://smartbhopal.city/>.

Chief Financial Officer
Bhopal Smart City Development Corporation Limited

JIYA ECO PRODUCTS LIMITED
Registered Office: Survey No. 202/2/1, Navagam (G), Taluka Valsad, Gujarat-384312
CIN: L01111GJ2011PL0068414, E: info@jiyaproducts.com, www.jiyaproducts.com

NOTICE OF BOARD MEETING

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, July 22, 2019 at 12.00 PM at the Corporate office of the Company inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the company for the quarter ended June 30, 2019.

The said Notice is also available on the company's website at www.jiyaproducts.com and on the website of the stock exchanges at www.bseindia.com

For Jiya Eco Products Limited
Place : Bhavnagar
Date : July 11, 2019
Harshil Shah
S/A
Company Secretary & Compliance Officer

MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED
(CIN:L18137GJ1999PL000283)

Regd. Office: 43, Balaaram Road, Gandhinagar-542119 Phone: 0422-2246109
Website: www.magnacast.com | Email: info@magnacast.com

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING - E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, 19th August, 2019 at 3.30 PM at "ARDRA" Conference Center, North Hazrat Road, Coimbatore-541218. The Notice convening the AGM along with the explanatory statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 and Annual Report has been sent on 10th July, 2019 to all the members at their respective registered addresses. The copy of the aforesaid documents are also available on the Company's website www.magnacast.com.

The Company is providing remote e-voting facility to the Members in accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules framed there under. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited, an agency authorized by the Ministry of Corporate Affairs for the purpose. The detailed process for participating in the e-voting is provided in the notice of the Annual General Meeting.

The Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on 12th August, 2019 being the cut-off date, may cast their respective vote electronically. The e-voting period commences on Friday, 16th August, 2019 at 09.00 AM (IST) and remains open upto 5.00 PM (IST) on Sunday, 18th August, 2019 and shall not be available thereafter.

In case any person becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM notice but before the cut-off date, i.e. 12th August 2019, he/she may write to the Company's Registrar and Share Transfer Agents, SKDC Consultants Limited through email at info@skdcconsultants.com for obtaining the User ID and password for e-voting. In case a person is already registered with e-Voting, their existing user ID and password can be used for casting their vote.

Members who have not cast their vote by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make necessary arrangements in this regard at the AGM venue.

Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

30-B Kirti Anandam, "Charan" Apartments, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process at the AGM venue.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 17 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 5th August, 2019 to Monday, 19th August, 2019 (both days inclusive) to ensure an uninterrupted e-voting process for the AGM. The Share of the Company for the financial year ended 31st March 2019, remained active upto Annual General Meeting.

Use of e-voting facilities relating to e-voting members can contact Skd Consultants SKDC, Coimbatore, RTA of the Company, contact no. 0422-2246109 or info@skdcconsultants.com, www.skdc.com.

For Magna Electro Castings Limited
NKRISHNA SAMRAJ
Managing Director

Place: Coimbatore
Date: 11/07/2019

HIMACHAL FUTURISTIC COMMUNICATIONS LTD.
Regd. Office : 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan-173213 (Himachal Pradesh)
Tel. : (+911792) 230644 , Fax No(+911792) 231902, E-mail: secretarial@hfcl.com
Website: www.hfcl.com / Corporate Identity Number (CIN): L64200HP1987PLC007466

CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS

REVENUE: Rs. 1343 Crs (23% increase)
EBIDTA: Rs. 194 Crs (104% increase)
PBT: Rs. 157 Crs (116% increase)
PAT: Rs. 117 Crs (148% increase)

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

(Rs. in Crore unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Three months ended	Preceding three months ended	Three months ended in the previous year	Previous Year ended	Three months ended	Preceding three months ended	Three months ended in the previous year	Previous Year ended
		June 30, 2019 Un-audited	March 31, 2019 Un-audited	June 30, 2018 Un-audited	March 31, 2019 Un-audited	June 30, 2019 Un-audited	March 31, 2019 Un-audited	June 30, 2018 Un-audited	March 31, 2019 Audited
1	Total income from operations	1,230.51	1,094.68	1,031.53	4,388.20	1,342.72	1,215.47	1,088.30	4,737.79
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	135.88	84.26	76.14	250.74	157.37	99.02	72.97	339.29
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	135.88	84.26	76.14	250.74	157.37	99.02	72.97	339.29
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	89.34	51.49	44.36	184.03	117.12	65.92	47.19	232.06
5	Total comprehensive income for the period (comprising net profit (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) for the period)	90.16	57.51	42.30	169.22	117.73	71.08	45.01	230.79
6	Equity Share Capital:	128.44	127.44	123.94	127.44	128.44	127.44	123.94	127.44
7	Other Equity	-	-	-	1,135.13	-	-	-	1,104.27
8	Earnings Per Share (Face Value, Rs. 1/- each) (for continuing and discontinuing operations):								
	Basic	0.73	0.42	0.34	1.48	0.86	0.50	0.37	1.77
	Diluted	0.73	0.40	0.34	1.48	0.86	0.50	0.37	1.75

Notes:

- The above Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2019 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 10th July, 2019.
- The above Results are in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.
- The Auditors have conducted limited review of the aforesaid financial results for the quarter ended 30th June, 2019. Un-audited figures for the corresponding quarter ended 30th June, 2018 and previous quarter ended 31st March, 2019 as reported in these consolidated financial results have been approved by the Company's Board of Directors. However, no report has been submitted by them.
- The figures of the preceding quarter ended 31st March, 2019 were the trailing figures between the audited figures for the 1st March, 2019 and the published results for the quarter ended 30th June, 2019.
- The figures of the previous periods have been presented in accordance with comparative disclosures.
- The above summary of the Standalone and Consolidated Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2019 has been reviewed and approved under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the company's website at www.hfcl.com and also on the website of BSE & NSE. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By order of the Board
(Mahendra Nathani)
Managing Director
DIN: 06922596

Place: New Delhi
Date: 10th July, 2019

भागलपुर : ट्रक से कुचल कर आठ की मौत, चालक फरार

भागलपुर, 11 जुलाई (जससंता)।

दिले में सुचारु रूप से चल रही थी। ट्रक का चालक भी घायल हो गया था, जो बाद में मर चुका था। ट्रक से कुचल कर आठ की मौत हो गई। चालक फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को बरत लिया। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को बरत लिया। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को बरत लिया। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।

नौमीन कुमार ने हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदन व्यक्त की है और पटना को ट्रस्ट देता। साथ ही परिवारों को चार-चार लाख रुपए नगद नुकसान देना का फैसला किया है।

मुयाज्जीबी नौमीन कुमार ने हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदन व्यक्त करते हुए परिवारों को चार-चार लाख रुपए नगद नुकसान देना का फैसला किया।

हादसा, रात के दस बजे की घड़ी की घड़ी सुचारु रूप से चल रहा था। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को बरत लिया। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को बरत लिया। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।

नौमीन कुमार की ओर से आठ के परिवारों के प्रति गहरी संवेदन व्यक्त की है और पटना को ट्रस्ट देता। साथ ही परिवारों को चार-चार लाख रुपए नगद नुकसान देना का फैसला किया है।

मुयाज्जीबी नौमीन कुमार ने हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदन व्यक्त करते हुए परिवारों को चार-चार लाख रुपए नगद नुकसान देना का फैसला किया।

हादसा, रात के दस बजे की घड़ी की घड़ी सुचारु रूप से चल रहा था। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को बरत लिया। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से ट्रक को बरत लिया। चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यूजेन सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
 न्यूजेन सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
 न्यूजेन सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
 न्यूजेन सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

INDIAN OVERSEAS BANK
 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक
 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक
 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक

कक्षा गौरीस
 कक्षा गौरीस
 कक्षा गौरीस
 कक्षा गौरीस

हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्प्युनिकेशन्स लि.
 हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्प्युनिकेशन्स लि.
 हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्प्युनिकेशन्स लि.
 हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्प्युनिकेशन्स लि.

एसआरएफ लिमिटेड
 एसआरएफ लिमिटेड
 एसआरएफ लिमिटेड
 एसआरएफ लिमिटेड

अग्रवाल कंप्यूटिंग का विभाग
 अग्रवाल कंप्यूटिंग का विभाग
 अग्रवाल कंप्यूटिंग का विभाग
 अग्रवाल कंप्यूटिंग का विभाग

हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्प्युनिकेशन्स लि.
 हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्प्युनिकेशन्स लि.
 हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्प्युनिकेशन्स लि.
 हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्प्युनिकेशन्स लि.

एसआरएफ लिमिटेड के लिए
 एसआरएफ लिमिटेड के लिए
 एसआरएफ लिमिटेड के लिए
 एसआरएफ लिमिटेड के लिए

भारतीय स्टेट बैंक
 भारतीय स्टेट बैंक
 भारतीय स्टेट बैंक
 भारतीय स्टेट बैंक

समेकित वित्तीय विशेषताएं
 148%
 116%
 104%
 23%
 ₹ 117 करोड़
 ₹ 157 करोड़
 ₹ 194 करोड़
 ₹ 1343 करोड़

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
 बैंक ऑफ बड़ौदा
 बैंक ऑफ बड़ौदा
 बैंक ऑफ बड़ौदा

30 जून, 2019 को समाप्त पहली तिमाही के लिए
 अलेखा-परीक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण
 (जब तक अन्य रूप में कथित न हो, स. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन				समेकित			
		मध्यम वित्तीय तिमाही	मध्यम वित्तीय तिमाही	मध्यम वित्तीय तिमाही	मध्यम वित्तीय तिमाही	मध्यम वित्तीय तिमाही	मध्यम वित्तीय तिमाही	मध्यम वित्तीय तिमाही	मध्यम वित्तीय तिमाही
1	अधिकारिता में मुद्रा	1203.61	1094.68	1031.53	4386.22	1342.73	127.57	1288.53	4377.29
2	अधिकारिता में मुद्रा - बैंक	135.45	64.26	70.14	790.74	167.37	66.02	77.27	159.29
3	अधिकारिता में मुद्रा - बैंक (अन्य)	135.45	64.26	70.14	299.74	167.37	66.02	77.27	159.29
4	अधिकारिता में मुद्रा - बैंक (अन्य)	49.18	41.49	44.17	164.33	15.59	42.14	144.18	144.18
5	अधिकारिता में मुद्रा - बैंक (अन्य)	93.18	67.61	47.37	167.73	71.03	25.01	250.23	250.23
6	अधिकारिता में मुद्रा - बैंक (अन्य)	174.44	127.44	133.94	127.44	127.44	127.44	127.44	127.44
7	अधिकारिता में मुद्रा - बैंक (अन्य)	3.02	2.42	3.34	1.24	0.50	0.37	1.27	1.27
8	अधिकारिता में मुद्रा - बैंक (अन्य)	3.73	3.47	3.34	1.24	0.50	0.37	1.27	1.27